



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

मंगलवार, 07 मार्च, 2023/16 फाल्गुन, 1944

हिमाचल प्रदेश सरकार

राज्यपाल सचिवालय, हिमाचल प्रदेश राजभवन, शिमला-2

अधिसूचना

दिनांक 22 फरवरी, 2023

नस्ति सं० 3-69/78 जी०एस०.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, श्री सुधीर कुमार जायसवाल सुपुत्र स्व० श्री मोती लाल, फ्लैट नं० 201, टॉवर इ पॉम, पैराडाईज नजदीक चिड़ियाघर, गोरखपुर,

उत्तर प्रदेश-273016 को राज्यपाल सचिवालय, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2 में वरिष्ठ निजी सचिव के रिक्त पद के विरुद्ध बतौर वरिष्ठ निजी सचिव लेबल-21 के सैल-1+अन्य भत्ते में प्रतिमाह दिनांक 18-02-2023 से नियुक्त करने की अनुमति सहर्ष इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि वह हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल के कार्यकाल तक या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, इस पद पर तैनात रहेंगे।

सेवाओं की अन्य शर्तें राज्य सरकार के प्रासंगिक नियमों और आदेशों के अनुसार समय-समय पर प्रभावी होंगी।

हस्ताक्षरित /—  
राज्यपाल के सचिव,  
हिमाचल प्रदेश।

**HIMACHAL ROAD TRANSPORT CORPORATION, SHIMLA-171003**

**NOTIFICATION**

*Shimla-3, the 6th March, 2023*

**No. H.O. : 9E-865/2016-17 (A).**—Consequent upon the recommendations of Service Committee and approval of the Board of Directors and subsequent approval of the Govt. of H.P. under Section 45 of Road Transport Act, 1950 conveyed *vide* letter No.TPT-A(3)-4/2011-Part-II-, dated 22-02-2023, the R&P Rules notified by the State Govt. in respect of HPFA&S *vide* Notification No. 3-1/75-Fin (T&A)-IV, dated 19-04-2018 and published in the Rajpatra *vide* Gazette No. 15/GAZETTE/2018-21/04/2018 (annexed at Annexure-A) to the posts of Section Officer (SAS), Assistant Controller (F&A) and Dy. Controller (F&A) are hereby adopted by HRTC with immediate effect.

Sd/-

(SANDEEP KUMAR IAS)  
Managing Director, HRTC.

**NAGAR PANCHAYAT TAHLIWAL, DISTT. UNA H.P.**

**NOTIFICATION**

*Tahliwal, the 21st February, 2023*

**No. NPT/Bye-Laws/2022-23/646.**—The Nagar Panchayat Tahliwal has draft (Property Taxation) By-laws—2023 for Publications in e-Gazette of H.P on 21-09-2022 *vide* Notification No 487 dated 01-10-2022 for inviting public objection & Suggestions under Section 217 of Himachal Pradesh Municipal Act, 1994.

Whereas no objection and suggestion and claims were received within the stipulated period.

Now therefore, in exercise of the power conferred by clause (A) of Section 217 and section 217 read with clause (d) of Section 65 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 ( Act No. 13

of 1994). The final Municipality (Property Taxation Bye-laws—2023) are hereby notified and published in Rajpatra H.P for the information of General Public as follows :—

## **NAGAR PANCHAYAT TAHLIWAL (PROPERTY TAXATION) BYE-LAWS—2023**

**1. Short title and commencement.**—(i) These Bye-laws may be called the Nagar Panchayat Tahliwal (Property Taxation) Bye-Laws-2023.

(ii) These Bye-laws shall come into force from the date of publication of its notification in the Rajpatra of Himachal Pradesh.

**2. Definitions.**—(1) In these Bye-laws unless the context otherwise require,—

- (i) “Act” means the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) read with its amendments carried out *vide* H.P. Municipal (Amendment) Act, 2016 and *vide* H.P. Municipal (Amendment) Act, 2020.
- (ii) “Appellate Authority” means an authority prescribed under Section 90 of H.P. Municipal Act, 1994.
- (iii) “Assessment List” means the list of all units of the lands and buildings assessable to property tax under the provisions of H.P. Municipal Act, 1994.
- (iv) “Assessment year” means the year commencing from the first day of April to 31st of March of succeeding year.
- (v) “Bye-Laws” means the Municipality (Property Taxation) Bye-laws 2022 made under the Act as notified in the official gazette.
- (vi) “Municipality” means as defined in Section 2 (24) of the Act.
- (vii) “Section” means a Section of the Act.
- (viii) “Retable Value” as defined in Section 2 clause (33-a) of the Act and procedure prescribed under these Bye-Laws.
- (ix) “Unit” means a specific portion of the land and building in use and occupation of the owner(s) or occupier(s) including vacant land and built up portion of the building. This will not include setbacks area of building, agricultural lands and land in notified green belt as notified under the interim development plan of NP Tahliwal Planning Area.
- (x) “Unit area” means area of a unit in square meters.
- (xi) “Unit area tax” means property tax on unit(s) of lands & buildings which shall be charged per annum between one percent to twenty five percent as may be determined on the basis of retable value of unit(s) of lands & buildings by the Municipality from time to time. All other words and expressions used herein but not defined shall have the same meaning respectively as assigned to them in the Act.

**3. Assessment list what to contain.**—The Secretary shall keep a book to be called the “Assessment List” in which the following shall be entered in FORM-A appended to these Bye-laws:—

- (a) A list of all units of the lands and buildings located within the jurisdiction of Nagar Panchayat Tahliwal distinguishing each either by name or number and containing such particulars regarding the location or nature of each, which shall be sufficient for identification thereof.
- (b) The rate able value of each unit of the lands and buildings.
- (c) The name of the person primarily liable for payment of property tax and rateable value as well as property tax demand on his/her unit of land or building.
- (d) If any such unit of a land or building is not liable to be assessed to the property tax, the reason for such non-liability; and
- (e) Other details; if any, as the Secretary may from time to time think, fit.

**Explanation.**—(i) For the purpose of clause (b) the rateable value of the unit(s) of the land will be the rate able value of the unit(s) of the land and in the case of unit(s) of the building, the rateable value will include the rate able value of the land and the unit(s) of the building erected thereon.

(ii) For the purpose of charging property tax on a unit of land, the unit of land shall be treated as “land” till the completion plan of building is sanctioned by Nagar Panchayat Tahliwal or by other competent authority of the State Government and such construction is put to use on the spot whichever occurs first. Accordingly, property tax shall be continued to be charged on the rate able value of the unit of land till such time treating it as “land”.

**4. Form of assessment list.**—The assessment list shall be kept in the FORM-A hereto. The Secretary may order to add, omit, amend or alter any of the columns of the Proforma of the assessment list as and when required.

**5. Procedure where name of person primarily liable for property tax cannot be ascertained.**—If the name of the person primarily liable for the payment of property tax in respect of any unit of any land or building cannot be ascertained, it shall be sufficient to designate him in the assessment list, property tax bill and in any notice which may be necessary to serve upon the said person under the Act, as “the holder” of such unit of land or building without further description.

**6. Inspection of assessment list.**—If assessment list has been completed, the Secretary shall give public notice thereof mentioning therein the place where assessment list or copy thereof may be inspected and every person claiming to be the owner or lessee or occupier of any unit(s) of any land or building included in the assessment list and any authorized agent of such person shall be at liberty to inspect the list and to file written objection within 30 days from the date of publication of such public notice in the local newspaper(s).

**7. Register of objections.**—The Secretary shall keep a register of objections in which all objections received under sub-section (2) of section 74 and sub-section (2) of section 76 shall be entered. The register shall contain:—

- (i) The name or number of the land or building in respect of which objection is received;
- (ii) Name of the person primarily liable for the payment of property tax;
- (iii) Name of the objector;
- (iv) The rate able value finally fixed after enquiry and investigation of the objection by the committee constituted in this behalf;
- (v) The date from which the rate able value finally fixed has to come into force; and
- (vi) Such other details as the Secretary may from time to time think fit;

**8. Amendment of assessment list under the provisions of Section 76 and investigation and disposal of objections against such amendments.**—(i) When any amendment is proposed to be made under the provisions of Section 76 such amendment will provisionally be made in the assessment list and the notice as required under the provision of sub-sections (1) & (3) of Section 76 shall be served on the person affected by the amendment after affording him the opportunity to file objection, if any, against the proposed amendment within 30 days from the date of receipt of such notice.

(ii) Objections shall be inquired into and investigated by the Committee constituted in this behalf under sub-section 1 of 75 of the Act, after affording opportunity of being heard to the objector.

(iii) The assessment list shall be finally amended in accordance with the decisions made by the said committee.

(iv) If no objection is received or if the same are received but not within the time limit specified in this behalf in the notice, the assessment list shall be finally amended by confirming the provisional amendment made in the assessment list. However, for special reasons to be recorded in writing, the committee constituted in this behalf may consider objections received after the expiry of the stipulated period.

(v) Property tax on the basis of the amended assessment list shall be due from the date specified in the assessment notice or from the date as may be decided by the Committee constituted in this behalf. Provided that payment of property tax on the basis of the assessment list, as existing before such an amendment will not be withheld on the ground that some amendment is to be made in the list.

**9. Payment of property taxes where to be made.**—Every person who is liable to pay any of the property tax shall pay the same at the Head Office of the Municipality or at such other place(s) and time as may be specified by the Secretary as the case may be. However, the payment of tax shall be made either by cash or cheque or through Bank Draft drawn in favor of the Secretary Nagar Panchayat Tahliwal payable at Tahliwal or through RTGS in the Bank Account of Nagar Panchayat Tahliwal declared for the said purpose by the Secretary as the case may be.

**10. Demand of property tax to be raised annually by issuing one single bill for one unit of a property.**—(i) Demand of property tax shall be raised annually by issuing a single property tax bill on FORM-B annexed to these Bye-laws for each unit of a property. The service of bill shall be effected by hand through special messenger and in case owner or occupier upon whom the bill is to be served is living outside the municipal limits, the bill shall be issued by post under certificate

of posting or by registered/speed post. In case the owner or occupier avoids by hand service of the bill, service of the bill shall be effected by affixing the bill in presence of two witnesses on the unit of the property to which the bill relates.

(ii) In case the owner or occupier upon whom the property tax bill has been served fails to make payment of the property tax within the due date, the property tax shall be recovered by the Secretary by the officer/official authorized by him in this behalf by initiating appropriate process under the provisions of Section 86 of the Act:

Provided that nothing herein contained shall affect the liability of such person to any increased property tax to which he may be assessed on account of the said unit of property owing to a revision of the rateable value.

(iii) The tax for the ensuring year shall be paid either in lump-sum within 30 days at the beginning of the financial year *i.e.* up to 30th April or in two half yearly installments. The first installment to be paid by 30th April and second installment by 30th October every year.

**11. Service of property tax bills and demand notices in respect of un-partitioned unit of property.**—If an un-partitioned unit of a property is owned by more than one person, service of bill(s) and notice(s) of demand on any one co-owner shall be treated as service on all the owners.

**12. Demand and collection registers.**—(i) A register of demand & collection of property tax in FORM-F appended to these bye-laws shall be maintained showing therein the figures of property tax demand, collection, rebate, remission adjustment, arrears, excess recoveries and such other particulars in relation to each unit of the property. This register will be kept either in the shape of hard copy or in the shape of soft copy or in both as the Secretary as the case may be think fit.

(ii) The register may, if any the Secretary thinks fit be made in separate parts or volumes for such purposes and with such several designations as the Secretary determine.

(iii) The separate Register shall be maintained for recording information regarding detail of arrears for the previous years.

**13. Circumstances not considered as vacancy of property.**—For the purpose of Section 80 and 81 of Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 : A unit of building or of a tenement reserved by the owner for his own occupation shall be deemed to be occupied, whether it is actually occupied by the owner or not;

(ii) Any unit of building or of a tenement used or intended to be used for the purpose of any industry which is seasonal in character shall not be deemed to be vacant merely on account of its being unoccupied and unproductive of rent during such period or periods of the year in which seasonal operations are normally suspended.

**14. Remission/refund not claimable unless notice of vacancy is given to the Secretary every year.**—When a vacancy continues from one year into the subsequent year, no refund or remission of any property tax shall be claimable from the Secretary on an account of such continued vacancy unless notice thereof is given to the Secretary within 60 days from the commencement of the next financial year.

**15. Inspection by Municipal Staff of the vacant unit of the property.**—If any owner or occupier does not allow or facilitate the inspection by the authorized Municipality staff of any unit

of the property claimed by him to be vacant, the Secretary refuse to treat such unit of building or tenement, as the case may be, as vacant till the day such inspection is made, and the vacancy of the unit of property verified.

**16. Copies of property tax bill(s).**—The Secretary on a request in writing from the owner of any unit of land or building or any other person primarily liable to pay property tax in respect thereof, give a copy or copies of any bill/bills for any property tax on payment of such fee as may be fixed by the Secretary from time to time.

**17. Notice on transfer of title.**—The notice regarding transfer of title of any unit of any property require to be given under Section 83 shall be either in FORM-“C” or FORM-“D” annexed to these bye-laws, as the case may be, and shall state clearly and correctly all the particulars required in the said Form(s).

**18. Property tax to be paid up to date.**—No such notice as contained in Bye-Laws 17 shall be deemed to be validly given unless the property tax due up to the date of transfer of title of the unit of property is paid in full.

**19. Filing of return by owner(s)/ occupier(s).**—The Secretary require any owner or occupier of a unit of land or building or of any portion thereof to furnish information or a written return in FORM-“E” appended to these Bye-laws. Every owner or occupier on whom any such requisition is made shall be bound to comply with the same and to give true information or to make a true return to the best of owner or occupier knowledge or belief, within a period of thirty days from the service of such requisition upon him/her.

**20. Penalty for non- submission of return.**—Whoever omits to comply with any requisition under 19 of this Bye-Laws 19 of these bye-laws or fails to give true information or to make a true return to the best of his knowledge or belief, shall in addition to any penalty under Section 82 of the Act, be precluded from objecting to any assessment made by the Secretary in respect of such unit of the lands or buildingS of which he is the owner or occupier.

**21. Inspection of tax record.**—Every owner, lessee or occupier of a unit of land/ building or authorized agent of any such person may, with the permission in writing of the Secretary or any officer/official authorized by him in this behalf inspect the tax record relating to the unit of the land/building of which is owner, lessee, agent or occupier free of charge during the office hours.

**22. Factors.**—There are five factors which are relevant for determination of rateable value of lands & buildings. These factors and proposed value of each factors per sq. meter.

**23. Location factor, characteristic and its value.**—For the purpose of clause (33-a) (c) of Section 2 of the Act, the location factor, characteristic and its values shall be as under:—

The entire municipal area is proposed to be in same zone.

**(F-1) Location factor : @ 2.5**

**24. (F-2) Structural factor, characteristics and its value.**—for the purpose of clause 33-c of section 2 of the Act, buildings shall be classified as pucca, semi pucca and kuTcha in the following manner:—

- |                                                 |   |       |
|-------------------------------------------------|---|-------|
| (i) For pucca buildings, value per sq.mtr       | = | @1.50 |
| (ii) For semi-pucca buildings, value per sq.mtr | = | @1.25 |

(ii) For kutch building, value per sq.mtr = @0.75

**25. (F-3) Age factor and age-wise grouping and value of building:—**For the purpose of clause 33-c of section 2 of the Act, buildings shall be grouped age-wise having factor value as mentioned against each age group as under:—

Group	Building	Factor Value
A	Before 1980	@0.75
B	1981-2000	@1.50
C	2001-2010	@2.00
D	2011-2020	@2.50
E	2021 afterward	@3.00

**26. (F-4) Occupancy factor, characteristics and its value:—**For the purpose of clause 33-c of section 2 of the Act, the occupancy factor and its value shall be as under:—

(i) Value per sq. mtr. for residential occupancy:—

Value for self residential	Value for let out residential
@2.50	@4.00

(ii) Value per sq. mtr. for non-residential occupancy:—

A	B	C	D	E
Hotel above built up area of 2000 sq. mtrs. MNC show rooms and restaurants	Hotel having built up area between 1000 to 2000 sq. mtrs. and show rooms above 1000 sq. mtrs.	Other hotels, bars, restaurants, banks, ATMs show rooms, call centre, marriage palace, coaching centre, clubs, theatre	Shops, schools, colleges, educational institutes, offices hostels, hospitals, paying guests house, guest house, industries	Godowns, dhabha, stall and other types of properties not covered under (A to D)
@10	@8	@6	@4	@3

**27. (F-5) Use factor, characteristics and its value:—**For the purpose of clause 33-c of section 2 of the Act, the value of use factor and characteristics of the unit(s) of the land and buildings shall be as under:—

- (i) Residential = @3.00  
(ii) Non residential = @4.00

**28. Method for calculation of ratable value and rate of property tax on the ratable value of the unit of land and buildings:—**Area (in sq. mtrs.) of a unit multiplied by value of relevant factor of unit area method as mentioned above, the figure that will so come out, thereof shall be the net ratable value of unit and the property tax shall be charged on that net ratable value at the rate as under:—

- (i) Self occupied residential properties measuring 01-100 sq. mtr. . . @ 6%  
(ii) Self occupied residential properties 100 sq.mtr. and above, let out residential and non residential properties . . @10%



**28. Penalty.**—If a person liable for payment of Property Tax does not pay the same within a period of one month from the issue of tax bill, a person shall be liable for payment of interest as per section 85, 86 & 87 of the Act beside initiation of recovery proceeding as per the provision of Section 89 of the Act. Further, whosoever contravenes any of the clauses of these Bye-laws shall be, in addition to the penalties as provided under the act, liable for disconnection of water, electricity and other civic amenities and the Secretary request the competent authority to withdraw registration/recognition, if any granted, in his/their favour.

Sd/-  
Secretary,  
Nagar Panchayat Tahliwal.

Nagar Panchayat Tahliwal				
TAX DEPARTMENT ASSESSMENT LIST				
UPN-No_____		I.D. No._____		ZONE_____
Unit	Area	Net Rateable Value	Property Tax Percentage	Amount of General Tax
Residential				
Let out Residential				
Commercial				
Plot of Land				

[illegible]

10844

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 07 मार्च, 2023/16 फाल्गुन, 1944


FORM-B  
(See Bye-Law 10)  
**Nagar Panchayat Tahliwal**  
Property Tax Bill

Financial Year for the Year \_\_\_\_\_ Bill No. \_\_\_\_\_ Dated \_\_\_\_\_  
Zone \_\_\_\_\_

**Bill(s) Detail**

UPN No. _____ ID No. _____ Name of Property _____ Name of Owner/Occupier _____ Correspondence Address _____				
Due date 15 days from the date of Receipt of bill/18 days if by post from the date of dispatch of bill.				
Unit	Area	Net Ratable Value	Property Tax Percentage	Amount of General Tax
Residential				
Let out Residential				
Commercial				
Plot of Land				

Detail of demand for Property Tax for the year \_\_\_\_\_ Period \_\_\_\_\_

Sl. No.	Description of Tax	Amount
1.	General Tax	
2.	(a) Rebate @ 10% (b) Remission	
3.	Previous Arrear Amount for the period _____	
4.	Interest Amount	
5.	Previous Credit	
6.	Amount Payable on due date	

7.	Amount Payable after due date	
8.	Amount still at credit	

Please pay bill before due date to avail 10% rebate.

*Bill Prepared By*

*Bill Checked By*

*Assistant Tax Superintendent*

### Receipt

UPN No. _____	Bill No. _____ Bill Date _____
ID No. _____	Amount before due date _____
Name of Owner/Occupier _____	Amount after due date _____
	Amount Paid _____
	Receipt No. _____ Dated _____

Cashier,  
Nagar Panchayat Tahliwal.

### Terms & Conditions

1. The Municipality Treasury is open from 10.00 AM to 02.00 PM on all working days.
2. Cheques should be drawn in favour of Secretary Nagar Panchayat Tahliwal.
3. Out stations cheques should be include the discount charged in such cheque(s).
4. Rebate @ 10% is given on the taxes claimed for the current year or a bill raised for the first time, if the amount specified in the bill is paid within 15 days from the presentation thereof. Bills send under postal certificate shall be construed to have been received within three days from the date the posting and accordingly this rebate is given if payment of the bill is made within 18 days from the date of posting.
5. If the payment of the tax is not made within the financial years in which the bill is issued an interest @ 1% per month shall be payable after one month of the close of the financial year to which the bill relates.
6. The notice of demand/recovery of property tax will not confer any right on the person paying the tax or anyone else to claim validation of unauthorized construction at a later date and the same is without any prejudice to the rights of Nagar Panchayat Tahliwal

to take any legal action including that of demolition in respect of such unauthorized construction/structure.

7. In case any of your payments have not been adjusted, same can be adjusted/settled by producing original receipts given by Nagar Panchayat Tahliwal.
8. In all correspondence, always mention No./date, name of house and demand No.
9. Bill generated be presented while tendering payment.

\_\_\_\_\_  
FORM-C  
(See Bye-Law 17)

**Form of notice of Transfer to be given which has taken place by way of instrument**

To

The Secretary,  
Nagar Panchayat Tahliwal.

I \_\_\_\_\_ s/o \_\_\_\_\_ r/o \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ hereby

give notice as required by Section 83 of the H.P. Municipal Act, 1994 of the following transfer of property:—

**Description of Property**

Name & address of person whose title has been transferred	Name & address of person to whom property title has been transferred	Detail of Property	Area of the property	Account No./ID No. of old assesses	Remarks
1	2	3	4	5	6

Date \_\_\_\_\_

Name of Owner/Occupier \_\_\_\_\_

Address \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Mob. No. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
FORM-D  
(See Bye-Law 17)

Form of notice of Transfer to be given which has taken place otherwise than by instrument

To

The Secretary,  
Nagar Panchayat Tahliwal.

I \_\_\_\_\_ s/o \_\_\_\_\_ r/o \_\_\_\_\_ hereby

give notice as required by section 83 of the H.P. Municipal Act, 1994 of the following transfer of property:—

### Description of Property

Name & address of person whose title has been transferred	Name of legal heir/successor to whom property title has been transferred	Detail of Property	Area of the property	Account No./ID No. of old assesses	Remarks
1	2	3	4	5	6

Date \_\_\_\_\_

Name of Owner/Occupier \_\_\_\_\_

Address \_\_\_\_\_

Mob.No. \_\_\_\_\_

FORM-E  
(See Bye-Law 19)

### (Tax liability Form under Section 82 read with Section 86 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994)

To

The Secretary,  
Nagar Panchayat Tahliwal.

Subject.—Filing of return for assessment of properties for Municipal Taxes.

Sir/Madam,

I am submitting the details of property known as \_\_\_\_\_ I.D. No \_\_\_\_\_  
Ward No. \_\_\_\_\_ Zone \_\_\_\_\_ as under:—

Sl. No.	Unit	Area	Factors	Total rateable Value	Maintenance & Repair Rebate @10% under clause (33-a) of	Net rateable value	Remarks
---------	------	------	---------	----------------------	---------------------------------------------------------	--------------------	---------

									Section 2 of the H.P. Municipal Act, 1994		
			F1	F2	F3	F4	F5	F1 to F5 (Multiply)			
1.	(a) Residential										
	(b) Let out Residential										
2.	Non Residential/ Commercial										
	(a) Hotel above built up area of 2000 sq.m., MNC Show Rooms and Restaurants										
	(b) Hotel having built up area between 1000 to 2000 sq.m. and show room above 1000 sq. m.										
	(c) Other Hotels, Bars, Restaurant, Banks, ATMs, Show rooms, Call Centre, Marriage Hall, Travel Agency, Mobile Towers, Coaching Centre										
	(d) Shops, Schools, Colleges, Education institutions, Offices, Hostel, Hospital, Theatre, Clubs, Paying Guest House (PGs), Guest House.										
	(e) Godowns, Dhaba, Stall and Other Types of Properties not covered under (a to d)										
3.	Plot of Land										

I hereby declare that the information furnished above is correct to the best of my knowledge and proper belief and nothing has been concealed there BBBfrom.

Date .....

Yours faithfully,

(Signature)

Owner/Agent/Occupier.

Name in block letters .....

Address .....

Mob. No. ....

*Verification of the  
Assistant Tax Superintendent*

*Verification of the  
Executive Officer/Secretary*

location factor is: 2.5 as F-1

1. (F-1) Location factor, characteristics and its value.—For the purpose of clause 33-c of section 2 of the Act, the
2. (F-2) Structural factor, characteristics and its value.— for the purpose of clause 33-c of section 2 of the Act, buildings shall be classified as pucca, semi pucca and kutcha in the following manner:—

- |                                                  |    |      |
|--------------------------------------------------|----|------|
| (i) For pucca buildings, value per sq.mtr.       | .. | 1.50 |
| (ii) For semi-pucca buildings, value per sq.mtr. | .. | 1.25 |
| (iii) For kutcha building, value per sq.mtr      | .. | 0.75 |

3. (F-3) Age factor and age-wise grouping and value of building.— For the purpose of clause 33-c of section 2 of the Act, buildings shall be grouped age-wise having factor value as mentioned against each age group as under:—

Group	Building	Factor Value
A	Before 1980	0.75
B	1981-2000	1.50
C	2001-2010	2.00
D	2011-2020	2.50
E	2021 afterward	3.00

4. (F-4) Occupancy factor, characteristics and its value.— For the purpose of clause 33-c of section 2 of the Act, the occupancy factor and its value shall be as under:—

- (i) Value per sq. mtr. for residential occupancy:—

Value for self residential	Value for let out residential
2.50	4.00

- (ii) Value per sq. mtr. For non-residential occupancy:—

A	B	C	D	E
Hotel above built up area of 2000 sq. mtr. MNC show rooms and restaurants	Hotel having built up area between 1000 to 2000 sq. mtr. And showrooms above 1000 sq. mtr.	Other hotels, bars, restuarents, banks, ATMs showrooms, call centre, marriage palace, coaching centre, clubs, theatre.	Shops, schools, collages, educational institutes, offices hostels, hospitals, paying guests house, guest house, industries.	Godowns, dhabha, stall and other types of properties not covered under (A to D)
10	8	6	4	3

5. (F-5) Use factor, characteristics and its value:- for the purpose of clause 33-c of section 2 of the Act, the value of use factor and characteristics of the unit(s) of the land and buildings shall be as under:—

Value per sq. mtr.

- |                      |    |      |
|----------------------|----|------|
| (iii) Residential    | .. | 3.00 |
| (iv) Non residential | .. | 4.00 |

6. Method for calculation of ratable value and rate of property tax on the ratable value of the unit of land and buildings:- Area (in sq. mtr.) of a unit multiplied by value of relevant factor of unit area method as mentioned above, the figure that will so come out, thereof shall be the net ratable value of unit and property tax shall be charged on that net ratable value at the rate as under:-

- (i) Self occupied residential properties measuring 01-100 sq. mtr. . . 6%
- (ii) Self occupied residential properties 100 sq.mtr. and above, let out residential and non residential properties. . . 10%
- (vi) A mobile tower . . fixed Rs. 6000/- P. A.

FORM-F  
(See Bye-Laws 12)  
**Nagar Panchayat Tahliwal**  
Demand and Collection Register

For the Financial Year \_\_\_\_\_

UNP No. _____
ID No. _____
Name of Property: _____
Name of Owner/Occupier: _____
Correspondence Address: _____
_____

Unit	Area	Net Rateable Value	Property Tax Percentage	Amount of General Tax
Residential				
Let Out Residential				
Commercial				
Plot of Land				



[illegible]

(d) "Form" means the Form annexed to the Procedure;

- (e) Words and expressions used in Procedure but not defined in the Procedure and defined in the Scheme shall have the meanings respectively assigned to them in the Scheme.

**3. Filing and acknowledgment of declaration under para 4.—**(1) The declaration under para 4 of the Scheme shall be made in Form SLCRS-01 by the declarant.

- (2) A separate declaration shall be filed for each case.

*Explanation.*—For the purpose of this clause, a “case” means—

- (a) Any additional demand pending for recovery pertaining to a financial year or any return period in respect of which assessment has been made; or
- (b) any pending assessment or any demand on account of tax, penalty and interest that may accrue as a result of determination of tax liability of such pending assessment under a subsumed enactment.

(3) Every declaration under the Scheme shall be accompanied by the Settlement Fee and all required documents as per clause 5 and 6.

(4) On receipt of the declaration, a registration number shall be assigned to it by maintaining a separate registration register by the members of the Designated Committee and an acknowledgement bearing a reference number shall be issued in Form SLCRS-02 to the declarant by the Designated Committee as per sub-para (2) of para 4.

(5) Notwithstanding anything contained in the Procedure, an acknowledgement shall not be issued and declaration shall be rejected if the declaration is not accompanied by proof of payment of settlement fee, if any.

**4. Constitution of designated committee.—**(1) The Designated Committee under para 2(1)(i) of the Scheme in each Revenue Circle may consist of following:—

- (i) The Deputy/Assistant Commissioner of State Taxes and Excise (District In-charge or the Circle In-charge as the case may be);
- (ii) The State Tax and Excise Officer/Asstt. State Taxes and Excise Officer (Circle In-charge).

**5. Payment of Settlement Fee.—**(1) The declarant shall calculate Settlement Fee as per para 6 of the Scheme as indicated in Annexure ‘A’, ‘B’ and ‘C’ appended with Form SLCRS-01.

(2) The payment of Settlement Fee calculated under para 6 of the scheme shall be deposited online in the government treasury in the relevant head of account of the subsumed Act and produce the proof of payment of such fee alongwith the declaration in Form SLCRS-01. No manual payment on account of Settlement Fee shall be accepted.

**6. Verification of Declaration by the Designated Committee.—**(1) The Designated Committee shall verify the correctness of the declaration made by the declarant under para 9 of the Scheme. The following documents shall be verified by the Designated Committee to ascertain the correctness and genuineness of the claim filed by the declarant in Form SLCRS-01:—

- (i) Balance sheet in case of the Company,

- (ii) Trading and Profit and Loss Account in case of traders,
- (iii) Abstract of all returns filed or not filed for the financial year and copies of such returns which are filed,
- (iv) Proof of payment of Settlement Fee in original,
- (v) Copies of assessment orders where settlement of any additional demand is pending for recovery for relevant years,
- (vi) Copy of last assessment order, if any,
- (vii) Proof of withdrawal of any proceeding or appeal Proof of withdrawal of any proceeding or appeal or revision for any period pending before the Appellate Forum, if any,
- (viii) Any other document/information as Designated Committee may require to its satisfaction.

(2) The Designated Committee shall issue Discharge Certificate in Form SLCRS-03 if the declaration filed is in order and reject the same in Form SLCRS-03(A) if the committee finds that the declaration is incomplete. In case where the declaration has been rejected, the declarant may request the Designated Committee in writing within 10 days of the rejection of the declaration requesting the Designated Committee to give him an opportunity of being heard. After giving opportunity if the declarant completes the deficiencies then the Designated Committee shall issue the Discharge Certificate.

**7. Scrutiny of Cases.**—Maximum 3% of cases wherein discharge certificates have been issued in Form SLCRS-03 may be taken up for scrutiny within one year of the closure of the Scheme as per the provisions of para 12. The Commissioner of State Taxes and Excise may fix the criteria for selection of such cases.

**8. Appeals.**—(1) The Appellate Authority for the purpose of para 13 of the Scheme may be as under:—

- (i) The Addl. Commissioner of State Taxes and Excise (South Zone), Shimla for South Zone comprising of District Shimla, Solan, Sirmaur, Kinnaur, Revenue district BBN at Baddi and Spiti of district Lahaul & Spiti;
- (ii) The Joint Commissioner of State Taxes and Excise (Central Zone), Mandi for Central Zone comprising of district Mandi, Kullu, Hamirpur, Bilaspur and Lahaul of district Lahaul & Spiti;
- (iii) The Joint Commissioner of State Taxes and Excise (North Zone), Palampur for North Zone comprising of district Kangra, Una, Chamba and revenue district Nurpur.

(2) Any aggrieved declarant may file an appeal before the Appellate Authority in Form SLCRS-04 within thirty days of the communication of any adverse order passed against the declarant.

(3) The Appellate Authority may, if it is satisfied that the appellant was prevented by a sufficient cause from preferring an appeal within the aforesaid period of thirty days, it may allow

such appeal to be preferred within a further period not exceeding thirty days.

(4) The Appellate Authority may, after giving the parties an opportunity of being heard, pass such order as he thinks fit, confirming or modifying the discharge certificate or notice appealed against or referred to.

(5) The Appellate Authority shall decide the appeal within 90 days from the date of filing of appeal under sub-para (5) of para 13 of the Scheme.

(6) A certified copy of the order pronounced by the Appellate Authority under sub-para (4) of para 13 of the Scheme shall be sent to the appellant and the designated committee after such pronouncement.

**Explanation.**—For the provision of this clause, the appeal shall be deemed to have been filed only when the acknowledgement, indicating the appeal number, is issued.

### FORM SLCRS-01 DECLARATION

[See Clause3(1)]

1. Name of the Subsumed Enactment:\_\_\_\_\_
2. Registration number of the Declarant:\_\_\_\_\_
3. Financial Year or any return period:\_\_\_\_\_
4. Name of the Declarant:\_\_\_\_\_
5. Office Address:\_\_\_\_\_
6. Name of the Zone (South Zone/Central Zone/North Zone):\_\_\_\_\_
7. Name of Revenue District:\_\_\_\_\_
8. Name of the Revenue Circle:\_\_\_\_\_
9. Whether Assessed (Yes/No):\_\_\_\_\_
10. If assessed then date of assessment (if any):\_\_\_\_\_
11. Gross turnover during the financial year or any return period:\_\_\_\_\_
12. Taxable Turnover during the financial year or any return period:\_\_\_\_\_
13. Whether appeal against the order is pending in any appellate forum (Yes/No):\_\_\_\_\_
14. If the appeal is pending, whether the same has been withdrawn or not (Yes/No):\_\_\_\_\_

**Note.**—If the appeal has been withdrawn, the copy of the Appeal Order shall be closed with the declaration.

15. (a) Whether all returns alongwith due payment of tax have been filed timely (Yes/No)\_\_\_\_\_

(b) Whether all statutory forms have been filed (if any) (Yes/No.):\_\_\_\_\_

(c) Whether any claim has been made against statutory Form (if any) (Yes/No):\_\_\_\_\_

**Note.**—The declarant who has answered yes for point No.(a), (b) and (c), shall not be required to pay any settlement fee].

16. If return have been filed late and due tax has been deposited after prescribed period, details shall be furnished as per **Annexure-'A'**.

17. If returns have not been filed or due tax has not been deposited, details shall be furnished as per **Annexure-'B'**.

18. If the required statutory forms with respect to a particular return period are not available, details shall be furnished as per **Annexure- 'C'**.

19. Amount of due tax:\_\_\_\_\_ (in words)\_\_\_\_\_ (in figures).

20. Amount of tax paid at the time of Assessment, if any:\_\_\_\_\_ (in words)\_\_\_\_\_ (in figures).

21. Amount adjusted against Settlement Fee under para 8 of the Scheme, if any \_\_\_\_\_ (in words)\_\_\_\_\_ (in figures).

22. Amount paid as Settlement Fee under the Scheme:\_\_\_\_\_ (in words) \_\_\_\_\_ (in figures).

23. (i) Date of payment of Settlement Fee (dd/mm/yyyy)\_\_\_\_\_

(ii) The copy of receipt of payment of Settlement Fee shall be enclosed with the Form

## DECLARATION

I, \_\_\_\_\_ (give full name, son/daughter of Sh. \_\_\_\_\_ (give name of the farther/ husband), r/o \_\_\_\_\_ (give complete address) hereby declare in the capacity of \_\_\_\_\_ (proprietor/partner/MD/duly authorized signatory) of M/s \_\_\_\_\_ (give full name of the business entity/dealer) have been its business address at \_\_\_\_\_ (give complete address of the dealer) the contents contained herein above are true and correct and that nothing has been concealed therein. The Himachal Pradesh Sadhbhawana Legacy Cases Resolution Scheme, 2023 has been opted after fully understanding the terms and conditions.

Date:

(Signature of the Declarant)

Place:

Name of the declarant  
(also affix Seal/Stamp of the dealer).

**Details to be furnished with respect to each late filed return or late deposited due tax on the below prescribed format**

**Return No.1:**

- (i) Periodicity of late filed Return (Annually/ Quarterly/ Monthly):\_\_\_\_\_
- (ii) Total number of returns filed late:\_\_\_\_\_
- (iii) Due tax w.r.t. such late filed return\_\_\_\_\_ (in figures),\_\_\_\_\_ (in words).
- (iv) Due tax deposited by the declarant w.r.t. such late filed return\_\_\_\_\_ (in figures),\_\_\_\_\_ (in words).
- (v) Date of deposition of tax amount w.r.t. such late filed return (dd/mm/yyyy) Settlement Fee calculated as per provision of sub-para (1) (ii) of para 6 w.r.t. such late filed return,\_\_\_\_\_ (in figures),\_\_\_\_\_ (in words) and date of deposition of settlement fee\_\_\_\_\_ (DD/MM/YYYY).

Date : \_\_\_\_\_ (signature of the declarant)

Place : \_\_\_\_\_ Name:.....

ANNEXURE-'B'

**Details to be furnished with respect to each non-filed return on the below prescribed format**

**Return No. 1:**

- (i) Periodicity of non-filed Return (Annually/Quarterly/Monthly):\_\_\_\_\_
- (ii) Total number of returns not filed:\_\_\_\_\_
- (iii) Taxable turnover involved in such non-filed return\_\_\_\_\_ (in figures),\_\_\_\_\_ (in words).
- (iv) Due tax w.r.t. such non-filed return\_\_\_\_\_ (in figures)\_\_\_\_\_ (in words).
- (v) Settlement Fee calculated as per sub-para (1)(iii) of para 6 under the relevant subsumed enactment on the taxable turnover w.r.t. such non- filed return,\_\_\_\_\_ (in figures),\_\_\_\_\_ (in words) and date of deposition of Settlement fee\_\_\_\_\_ (DD/MM/YYYY).

Date: \_\_\_\_\_ (Signature of the Declarant)

Place: \_\_\_\_\_ Name\_\_\_\_\_

**Details to be furnished on the below prescribed format if the required statutory forms with respect to a particular return period are not available and the due tax as per returns has been paid**

1. Total Number of Statutory forms not filed\_\_\_\_\_.
2. Name of the each non-filed Statutory forms and amount of transactions involved in such Form:
  - (i) Name (e.g.C/F/H/D etc.)\_\_\_\_\_ (Amount in figures)
  - (ii) Name (e.g.C/F/H/D etc.)\_\_\_\_\_ (Amount in figures)
  - (iii) Name (e.g.C/F/H/D etc.)\_\_\_\_\_ (Amount in figures)
3. Total value of transactions involved in all such Statutory forms which have not been produced\_\_\_\_\_(in figures),\_\_\_\_\_(in words).
4. Amount of tax paid against the turnover of transactions involved in such Statutory forms as if the forms were available, which have not been produced, if any\_\_\_\_\_(in Figures),\_\_\_\_\_(in words).
5. Calculated amount of settlement fee:
  - \*(i) Settlement fee applicable on tax paid against the transactions involved in such non-produced statutory forms\_\_\_\_\_; or
  - \*\* (ii) Settlement fee applicable on the turnover of transactions involved in such non-produced statutory forms\_\_\_\_\_.

Whichever is applicable as per sub-para (2) (a) & (b) of para 6.

6. Total amount of settlement fee payable\_\_\_\_\_(in figures),  
\_\_\_\_\_(in words).

Date:

(Signature of the Declarant)

Place:

Name:\_\_\_\_\_

- 
- \* Those cases where concessional rate of tax against statutory form was applicable.  
 \*\* Those cases where no tax was involved against statutory forms.

**FORM SLCRS-02 ACKNOWLEDGEMENT**

[See clause 3(4)]

Received from Sh.\_\_\_\_\_ of M/s\_\_\_\_\_ Registration No.\_\_\_\_\_, a declaration in Form SLCRS-01 under clause\_\_\_\_\_ for the assessment year/return period\_\_\_\_\_ for resolution of legacy issues under the relevant subsumed enactment, namely\_\_\_\_\_ alongwith all required relevant documents.

Signature.....  
 Name of the issuing Authority.....  
 Circle.....District.....

Date.....

Place.....

(Seal)

### FORM SLCRS-03

(See clause 6)

Discharge certificate No. \_\_\_\_\_

Discharge certificate is issued to Sh. \_\_\_\_\_ s/o Sh. \_\_\_\_\_  
 r/o \_\_\_\_\_ who is present in the capacity of \_\_\_\_\_  
 on behalf of M/s \_\_\_\_\_ Registration No. \_\_\_\_\_  
 address \_\_\_\_\_ after verifying all the documents which are mandatory under the  
 Himachal Pradesh Sadhbhawana Legacy Cases Resolution Scheme, 2023 for the assessment  
 year/return period \_\_\_\_\_.

Member- 1:

Signature \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Member- 2:

Signature \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Date.....

Place.....

Circle..... District... Zone.....  
 (SEAL)

### FORM SLCRS-03(A)

(See clause 6)

No. \_\_\_\_\_

This is to inform that Sh. \_\_\_\_\_ s/o Sh. \_\_\_\_\_  
 r/o \_\_\_\_\_ who is present in the capacity  
 of \_\_\_\_\_ on behalf of M/s \_\_\_\_\_  
 Registration No. \_\_\_\_\_, address \_\_\_\_\_ that the  
 information provided by you in Form SLCRS-01 is not complete in material nor accompanied by  
 documents as prescribed. Therefore, the declaration filed by you is hereby rejected and documents  
 submitted are returned to you in original.



Reasons for ground of rejection:

- 1.
- 2.
- 3.

Signature.....  
 Name of the issuing Authority.....  
 Circle.....District.....  
 Zone.....

Date.....

(SEAL)

Place.....

**Note.**—The Designated Committee shall give specific reasons/ grounds for rejection of declaration.

**FORM SLCRS-04**  
 (See clause 8)

**Form of memorandum of appeal to the Appellate Authorities under para 13 of the Himachal Pradesh Sadhbhawana Legacy Cases Resolution Scheme, 2023**

\*Space for court fee  
tam

\*Before the

\*\*Appellate Authority

M/s

Appellant(s)

Versus

Respondent

1.	Assessment year/ return period	
2.	District in which assessment made	
3.	Authority passing the order in dispute	
4.	Date of passing order appealed against	
5.	Address to which notice may be sent to the appellant(s).	
6.	Address to which notice may be sent to the respondent.	

7.	a	Settlement Fee determined by the Designated Committee	
8.		Whether the Settlement Fee created by the Designated Committee has been deposited into the government treasury or not.	TR. No.      Date
9.		Grounds of appeal	

*Signature of the Appellant(s) or  
his/ their duly authorized agent.*

### VERIFICATION

I/We..... appellant(s) named in the above appeal do hereby declare that what is stated above is true to the best of my/our knowledge and belief.

Verified.....this..... the day of.....

*Signature of Appellant(s) or  
his/their duly authorized agent.*

### Note.—

- (i) The appeal shall be written on the standard watermarked judicial paper and to be filled in triplicate specifying all the particulars given in this form.
- (ii) It shall bear court-fee stamps worth Rs.....containing a clear statement of facts and grounds of appeal briefly but clearly set-out and shall also state precisely the relief prayed for.
- (iii) It shall be accompanied by:—
  - (a) The order in original against which it is made duly authenticated copy thereof unless the omission to do so or to produce such order or copy is explained at the time of presentation of memorandum of appeal to the satisfaction of the appellate authority; and
  - (b) Proof of payment of Settlement Fee unless the inability to make payment of such amounts payments proved and unless a written prayer to that affect has been submitted alongwith the memorandum of appeal.
- (iv) It shall be signed and verified by the appellant(s) or by an agent duly authorized by him/ them in this behalf.

\*Please indicate the designation of the authority, before whom the appeal is to be filled.

**\*\*Please indicate the place of the Appellate Authority, where his office court is situated.**

By order,

Sd/-

(BHARAT KHERA),  
Principal Secretary (ST&E).

**ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

पुष्पा देवी पुत्री श्री जगत राम, गांव ऐलो, डाकघर सिद्धकुण्ड, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा,  
हिमाचल प्रदेश वादिया।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत सिद्धकुण्ड, विकास खण्ड चम्बा प्रतिवादी।

विषय.—मृत्यु तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 4877/2022, दिनांक 25-11-2022 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2022/21230, दिनांक 10-11-2022, (2) शपथ पत्र आवेदक, (3) शपथ पत्र वाशिन्दगान देह, (4) मृत्यु रिपोर्ट, (5) Non Availability Certificate, (6) आधार कार्ड जिसमें पुष्पा देवी पुत्री श्री जगत राम, गांव ऐलो, डाकघर सिद्धकुण्ड, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की माता गुरो देवी पत्नी श्री जगत राम, ग्राम पंचायत सिद्धकुण्ड की मृत्यु तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामतः पंचायत के मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका की माता गुरो देवी पत्नी श्री जगत राम, ग्राम पंचायत सिद्धकुण्ड की मृत्यु तिथि दर्ज न है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि जारी मृत्यु रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 10-11-2022 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि गुरो देवी पत्नी श्री जगत राम, ग्राम पंचायत सिद्धकुण्ड, परगना राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की मृत्यु तिथि 20-09-1987 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका की माता गुरो देवी पत्नी श्री जगत राम, ग्राम पंचायत सिद्धकुण्ड, परगना राजनगर की मृत्यु तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव सिद्धकुण्ड को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 13-02-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत श्री सीता राम नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील तेलका,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

मिसल नं० : 07 ना० तह० वाचक उप-तहसील तेलका/2022

तारीख दायरा : 19-12-2022-68

शशि कुमार पुत्र आशा कुमार, गांव व मुहाल अन्द्राल, परगना जुन्ठ, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश प्रतिवादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।

शशि कुमार पुत्र आशा कुमार, गांव व मुहाल अन्द्राल, पटवार वृत्त ट्रेकड़ी, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा ने इस अदालत में एक आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी किया है कि मेरे पिता का नाम परिवार रजिस्टर नकल, आधार कार्ड, राशन कार्ड व बैंक पास बुक में आशा कुमार पुत्र सन्त राम दर्ज है जो बिलकुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल अन्द्राल, पटवार वृत्त ट्रेकड़ी, उप-तहसील तेलका में मेरे पिता का नाम आसो राम दर्ज है जो कि गलत है।

अतः प्रार्थी का ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इशतहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के पिता का नाम इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन इस इशतहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किसम का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थी के पिता का नाम आसो राम की बजाए आशा कुमार पुत्र सन्त राम दर्ज करने के आदेश पटवारी, पटवार वृत्त ट्रेकड़ी को पारित कर दिए जाएंगे।

यह इशतहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 07-02-2023 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि० प्र०)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी एवं ना० तहसीलदार, जरी,  
उप-तहसील जरी, जिला कुल्लू (हि० प्र०)**

केस नं० : 02-MNT/2023

दायर तिथि : 27-09-2022

1. श्री नितिन पुत्र श्री प्यारे लाल, निवासी गांव व डाकघर मनीकर्ण, उप-तहसील जरी, जिला कुल्लू (हि० प्र०)।

2. श्रीमती बंदना पुत्री श्री हरी सिंह, निवासी गांव देवगां, डा० मौहल, उप-तहसील जरी, जिला कुल्लू (हि० प्र०)

बनाम

## सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.— प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने 27-09-2022 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र पेश किये हैं कि उन्होंने दिनांक 11-10-2021 को शादी कर ली है और तब से दोनों पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत मनीकर्ण, उप-तहसील जरी जिला कुल्लू, हि0प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 13-03-2023 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 07-02-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी, ना0 तहसीलदार द्वितीय श्रेणी,  
जरी, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

-----

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी एवं ना0 तहसीलदार, जरी,  
उप-तहसील जरी, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

केस नं0 : 03-MNT / 2022

दायर तिथि : 02-01-2023

1. श्री दया राम पुत्र श्री सेस राम, निवासी गांव बनाशा, डाकघर कसलादी, उप-तहसील जरी, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

2. श्रीमती वीना देवी पुत्री श्री हेत राम, निवासी गांव छिंजरा, डा0 बराधा, उप-तहसील जरी, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.— प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने 02-01-2023 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र पेश किये हैं कि उन्होंने दिनांक 10-06-2004 को शादी कर ली है और तब से दोनों पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत पीणी, उप-तहसील जरी जिला कुल्लू, हि0प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह

दिनांक 13-03-2023 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असातन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 07-02-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी, ना0 तहसीलदार द्वितीय श्रेणी,  
जरी, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी एवं ना0 तहसीलदार, जरी,  
उप-तहसील जरी, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

केस नं0 : 01-MNT / 2023

दायर तिथि : 03-01-2023

1. श्री भोले राम पुत्र श्री नीरत राम, निवासी गांव ढनाली, डाकघर कसलादी, उप-तहसील जरी, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

2. श्रीमती रीना कुमारी पुत्री श्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव बनाशा, डा0 कसलादी, उप-तहसील जरी, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.— प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने 03-01-2023 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र पेश किये हैं कि उन्होंने दिनांक 09-10-2020 को शादी कर ली है और तब से दोनों पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत पीणी, उप-तहसील जरी जिला कुल्लू हि0प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 13-03-2023 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असातन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 07-02-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी, ना0 तहसीलदार द्वितीय श्रेणी,  
जरी, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी एवं ना0 तहसीलदार, जरी,  
उप-तहसील जरी, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)**

केस नं० : 08-MNT/2022

दायर तिथि : 29-08-2022

1. श्री गोपी चन्द पुत्र श्री रेवत राम, निवासी गांव जां, डाकघर बराधा, उप-तहसील जरी, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

2. श्रीमती तारा देवी पुत्री श्री खूब राम, निवासी गांव बनाशा, डा0 कसलादी, उप-तहसील जरी, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.— प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने 29-08-2022 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र पेश किये हैं कि उन्होंने दिनांक 05-01-2006 को शादी कर ली है और तब से दोनों पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत जां, उप-तहसील जरी जिला कुल्लू हि0प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 13-03-2023 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 07-02-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी, ना0 तहसीलदार द्वितीय श्रेणी,  
जरी, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

-----

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0प्र0)**

मुकद्दमा शीर्षक :

श्री खेम सिंह पुत्र डागू, निवासी खनौड, डाकघर स्योह, तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—दरखास्त कागजात माल में नाम दुरुस्त करने बारे।

प्रार्थी उपरोक्त ने प्रार्थना-पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है कि उसका सही नाम खेम सिंह है परन्तु राजस्व रिकार्ड महाल खनौड में गलती से खेम चन्द दर्ज है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर, आधार प्रति व शपथ-पत्र संलग्न कर रखा है।

अतः आम जनता को इस इशतहार राजपत्र मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को इस नाम दुरुस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन मिति 13-03-2023 को पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 08-02-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

समक्ष नायब तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, लडभडोल,  
जिला मण्डी (हि0 प्र0)

तारीख पेशी : 15-03-2023

श्री कुलभूषण ठाकुर पुत्र श्री रंगील सिंह उपनाम रणजीत सिंह पुत्र चन्द्रमणी, निवासी गांव घटौड,  
डाकघर पंजालग, तहसील लडभडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

फरीकदोयम।

दरखास्त बाबत नाम दुरुस्ती।

श्री कुलभूषण ठाकुर पुत्र श्री रंगील सिंह उपनाम रणजीत सिंह पुत्र चन्द्रमणी, निवासी गांव घटौड, डाकघर पंजालग, तहसील लडभडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में दिनांक 09-02-2023 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम कुलभूषण ठाकुर है परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल घटौड में कुलभूषण दर्ज हो चुका है जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में अबाहन पत्र तलबाना, स्व घोषणा पत्र, परिवार नकल, शिक्षा प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित करने हेतु आग्रह किया है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल घटौड में प्रार्थी का नाम कुलभूषण के स्थान पर कुलभूषण ठाकुर पुत्र श्री रंगील सिंह उपनाम रणजीत सिंह पुत्र चन्द्रमणी, निवासी गांव घटौड, डाकघर पंजालग, तहसील लडभडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) के नाम दुरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 15-03-2023 को 10.00 बजे प्रातः इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।



यह इशतहार आज दिनांक 10-02-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

समक्ष नायब तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, लडभड़ोल,  
जिला मण्डी (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 15-03-2023

श्री विपन राणा पुत्र श्री जनक सिंह पुत्र राम सिंह, निवासी गांव उपरली गागल, डाकघर पंजालग,  
तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

फरीकदोयम।

दरखास्त बाबत नाम दुरुस्ती।

श्री विपन राणा पुत्र श्री जनक सिंह पुत्र राम सिंह, निवासी गांव उपरली गागल, डाकघर पंजालग,  
तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस अदालत में दिनांक 08-02-2023 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत  
करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम विपन राणा है परन्तु प्रार्थी का  
नाम राजस्व अभिलेख महाल उपरली गागल में विपन दर्ज हो चुका है जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने  
अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में अबाहन पत्र तलबाना, स्व घोषणा पत्र, परिवार नकल, शिक्षा प्रमाण-पत्र,  
आधार कार्ड साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित करने हेतु आग्रह  
किया है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी  
व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल उपरली गागल में प्रार्थी का नाम विपन के स्थान पर विपन राणा पुत्र  
श्री जनक सिंह पुत्र राम सिंह, निवासी गांव उपरली गागल, डाकघर पंजालग, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी  
(हि0प्र0) के नाम दुरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी  
15-03-2023 को 10.00 बजे प्रातः इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है।  
बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर  
दिए जाएंगे।

यह इशतहार आज दिनांक 09-02-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

**ब अदालत श्री विपिन वर्मा तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद,  
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश**

श्री प्रेम सिंह पुत्र लीला सिंह, निवासी मझगांव शमलाटी, डाकघर नैना टिक्कर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरखास्त.—जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

हरगाह आम को सूचित किया जाता है कि श्री प्रेम सिंह पुत्र लीला सिंह, निवासी मझगांव शमलाटी, डाकघर नैना टिक्कर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र जिला रजिस्ट्रार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन को इस आशय से प्रस्तुत किया था कि उनकी जन्म तिथि 14-02-1982 का पंजीकरण ग्राम पंचायत नैना टिक्कर के जन्म रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया जा सका था व अनुरोध किया है कि इनका पंजीकरण ग्राम पंचायत नैना टिक्कर में करवाया जावे। उक्त प्रार्थना-पत्र जिला रजिस्ट्रार द्वारा इस न्यायालय को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है।

अतः इस से पूर्व कि उक्त व्यक्ति का पंजीकरण किया जावे इस इशतहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उनके नाम व जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 14-03-2023 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 14-02-2023 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,  
पच्छाद स्थित सराहां, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

**ब अदालत श्री विपिन वर्मा तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद,  
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश**

श्री जकमत दोरजे पुत्र श्री नयमल दोरजे, निवासी चड़ेच, डाकघर सराहां, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरखास्त.—जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

हरगाह आम को सूचित किया जाता है कि श्री जकमत दोरजे पुत्र श्री नयमल दोरजे, निवासी चड़ेच, डाकघर सराहां, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र जिला

रजिस्ट्रार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन को इस आशय से प्रस्तुत किया था कि उनके पुत्र प्रकाश की जन्म तिथि 26-01-2003 का पंजीकरण ग्राम पंचायत सराहां के जन्म रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया जा सका था व अनुरोध किया है कि इनका पंजीकरण ग्राम पंचायत सराहां में करवाया जावे। उक्त प्रार्थना-पत्र जिला रजिस्ट्रार द्वारा इस न्यायालय को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है।

अतः इस से पूर्व कि उक्त व्यक्ति का पंजीकरण किया जावे इस इशतहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इनके नाम व जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 14-03-2023 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 14-02-2023 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,  
पच्छाद स्थित सराहां, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री विपिन वर्मा तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद,  
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री रमेश पुत्र मन्शा राम, निवासी उफर, डाकघर कोटला पंजोला, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरखास्त.—जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

हरगाह आम को सूचित किया जाता है कि श्री रमेश पुत्र मन्शा राम, निवासी उफर, डाकघर कोटला पंजोला, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र जिला रजिस्ट्रार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन को इस आशय से प्रस्तुत किया था कि उनकी बहन श्रीमती निर्मला देवी पुत्री मन्शा राम की मृत्यु तिथि 03-11-1997 का पंजीकरण ग्राम पंचायत कोटला पंजोला के मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया जा सका था व अनुरोध किया है कि इनका पंजीकरण ग्राम पंचायत कोटला पंजोला में करवाया जावे। उक्त प्रार्थना-पत्र जिला रजिस्ट्रार द्वारा इस न्यायालय को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है।

अतः इस से पूर्व कि उक्त महिला का पंजीकरण किया जावे इस इशतहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त महिला की मृत्यु तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 14-03-2023 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 14-02-2023 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,  
पच्छाद स्थित सराहां, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

**ब अदालत श्री विपिन वर्मा तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद,  
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश**

श्री जय किशन पुत्र श्री विद्या दत्त, निवासी डाकघर बनाह की सैर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरखास्त.—जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

हरगाह आम को सूचित किया जाता है कि श्री जय किशन पुत्र श्री विद्या दत्त, निवासी व डाकघर बनाह की सैर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र जिला रजिस्ट्रार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन को इस आशय से प्रस्तुत किया था कि उनकी बहन श्रीमती पुनम शर्मा पुत्री विद्या दत्त की मृत्यु तिथि 25-06-2011 का पंजीकरण ग्राम पंचायत बनाह धिन्नी के मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया जा सका था व अनुरोध किया है कि इनका पंजीकरण ग्राम पंचायत बनाह धिन्नी में करवाया जावे। उक्त प्रार्थना-पत्र जिला रजिस्ट्रार द्वारा इस न्यायालय को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है।

अतः इस से पूर्व कि उक्त व्यक्ति का पंजीकरण किया जावे इस इशतहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त व्यक्ति की मृत्यु तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 14-03-2023 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 14-02-2023 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,  
पच्छाद स्थित सराहां, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

समक्ष श्री बंशी राम शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार) तहसील ददाहू,  
जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 04/13(3) of 2023

तारीख पेशी : 16-03-2023

श्रीमती सत्या देवी विधवा श्री प्रसन्ना राम, निवासी बार्थल, डा0 बिरला, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्रीमती सत्या देवी विधवा श्री प्रसन्ना राम, निवासी बार्थल, डा0 बिरला, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि वह अपने पति प्रसन्ना राम की मृत्यु तिथि जोकि 15-01-2018 है, ग्राम मंधाना के रिकार्ड में दर्ज नहीं है जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अब सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 16-03-2013 को प्रातः 10 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबिले गौर न होगा तथा सायल की मृत्यु तिथि 15-01-2018 को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13-02-2023 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया।

मोहर।

बंशी राम शर्मा,  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

समक्ष श्री बंशी राम शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार) तहसील ददाहू,  
जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 01/13(3) of 2023

तारीख पेशी : 16-03-2023

श्री कुलदीप कुमार पुत्र श्री रती राम, निवासी खाला क्यार, डा0 खाला क्यार, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री कुलदीप कुमार पुत्र श्री रती राम, निवासी खाला क्यार, डा0 खाला क्यार, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि वह अपने पुत्र समर चौहान का नाम व जन्म तिथि 19-04-2019, जो ग्राम पंचायत खाला क्यार के रिकार्ड में दर्ज नहीं है जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अब सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 16-03-2023 को प्रातः 10 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबिले गौर न होगा तथा सायल की जन्म तिथि 19-04-2019 को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13-02-2023 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया।

मोहर।

बंशी राम शर्मा,  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

समक्ष श्री बंशी राम शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार) तहसील ददाहू,  
जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नं० : 04/13(3) of 2022

तारीख पेशी : 16-03-2023

श्री अनिल कुमार पुत्र श्री घासी राम, निवासी खाला क्यार, डा0 खाला क्यार, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण दर्ज करने बारे प्रार्थना—पत्र।

उपरोक्त प्रार्थना—पत्र श्री अनिल कुमार पुत्र श्री घासी राम, निवासी खाला क्यार, डा0 खाला क्यार, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि वह अपनी पुत्री तनिषा का नाम व जन्म तिथि 25-04-2017 है, ग्राम पंचायत खाला क्यार के रिकार्ड में दर्ज नहीं है जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अब सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 16-03-2023 को प्रातः 10 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबिले गौर न होगा तथा सायल की जन्म तिथि 25-04-2017 को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13-02-2023 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया।

मोहर।

बंशी राम शर्मा,  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 7 मार्च, 2023

अधिसूचना संख्या: 1/2023—राज्य कर (दर)

सं० ई.एक्स.एन.—एफ.(10)—5/2023.—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10), की धारा 9 की उप-धारा (3) और उप-धारा (4), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5), और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, हिमाचल प्रदेश सरकार, की अधिसूचना संख्या 12/2017—राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 20, 17 जिसे ई—राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में संख्या ई.एक्स.एन.—एफ.(10)—14/2017—लूज दिनांक 30 जून, 2017, के तहत प्रकाशित की गई थी, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:—

उक्त अधिसूचना में पैराग्राफ 3 में स्पष्टीकरण में, खंड (iv) के बाद, निम्नलिखित खंड को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(iva) शंकाओं के निवारण हेतु यह स्पष्ट किया जाता है कि शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सहित केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड या निकाय को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा के संचालन के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने के सीमित उद्देश्य के लिए शैक्षिक संस्थान माना जाएगा।”

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 मार्च, 2023 से लागू समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/—

(भरत खेड़ा),

प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)।

*[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-5/2023, dated 07-03-2022 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].*

## STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-2, the 7th March, 2023*

#### Notification No. 1/2023-State Tax (Rate)

**No. EXN-F(10)-5/2023.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and Section 148 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following amendment further to amend the notification No. 12/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the e-Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)-14/2017-Loose dated the 30th June, 2017, namely:—

In the said notification, in paragraph 3, in the Explanation, after clause (iv), the following clause shall be inserted, namely:—

“(iva) For removal of doubts, it is clarified that any authority, board or body set up by the Central Government or State Government including National Testing Agency for conduct of entrance examination for admission to educational institutions shall be treated as educational institution for the limited purpose of providing services by way of conduct of entrance examination for admission to educational institutions.”.

2. This notification deemed to be come into force from the 1st day of March, 2023.

By order,

Sd/-  
(BHARAT KHERA),  
Pr. Secretary (ST&E).

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 7 मार्च, 2023

अधिसूचना संख्या: 2/2023-राज्य कर (दर)

सं० ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-5/2023.—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10), की धारा 9 की उप-धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, हिमाचल प्रदेश सरकार, की अधिसूचना संख्या 13/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017, जिसे ई-राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-14/2017-लूज दिनांक 30 जून, 2017, के तहत प्रकाशित की गई थी, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:—

उक्त अधिसूचना में पैराग्राफ 3 में स्पष्टीकरण में, खण्ड (ज) में, “और राज्यों के विधान मंडल” शब्दों के स्थान पर शब्दों “राज्यों के विधान मंडल, न्यायालयों और न्यायाधिकरणों” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 मार्च, 2023 से लागू समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/—

(भरत खेड़ा),  
प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)।

*[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-5/2023, dated 07-03-2022 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].*

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 7th March, 2023

Notification No. 2/2023-State Tax (Rate)



**No. EXN-F(10)-5/2023.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 9, of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following further amendment in the notification of the Government of Himachal Pradesh No. 13/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the e-Gazette of Himachal Pradesh, *vide* number EXN-F(10)-14/2017-Loose dated the 30th June, 2017, namely:—

In the said notification, in the Explanation, in clause (h), for the words “and State Legislatures” the words “, State Legislatures, Courts and Tribunals” shall be substituted

2. This notification deemed to be come into force from the 1st day of March, 2023.

By order,

Sd/-  
(BHARAT KHERA),  
Pr. Secretary (ST&E).

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 7 मार्च, 2023

अधिसूचना संख्या: 3/2023-राज्य कर (दर)

**सं० ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-5/2023.**—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10), की धारा 9 की उप-धारा (1) और धारा 15 की उप-धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, हिमाचल प्रदेश सरकार, की अधिसूचना संख्या 1/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017, जिसे ई-राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-14/2017-लूज दिनांक 30 जून, 2017, के तहत प्रकाशित की गई थी, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:—

उक्त अधिसूचना में,—

(i) अनुसूची I-2.5% में, क्रम संख्या 91 क के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:—

“गन्ने के गुड़, पलमायरा गुड़ सहित सभी प्रकार के गुड़, जो प्री पैकेज्ड और लेबल किये गए हों, खांडसारी शुगर, जो प्री पैकेज्ड और लेबल की गई हो, राब, जो प्री-पैकेज्ड और लेबल की गई हो”;

(ii) अनुसूची II-6% में, क्रम संख्या 186 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतः स्थापित किया जाएंगी, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)
“186क	8214	पेंसिल शार्पनर्स”;

(iii) अनुसूची III-9% में, क्रम संख्या 302क के सामने, कॉलम (3) में, अंत में, कोष्ठक और शब्द “[पेंसिल शार्पनर्स के अलावा]” अंतःस्थापित किए जाएंगे।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 मार्च, 2023 से लागू समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/—

(भरत खेड़ा),

प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)।

*[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-5/2023, dated 07-03-2022 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].*

## STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-2, the 7th March, 2023*

#### Notification No. 3/2023-State Tax (Rate)

**No. EXN-F(10)-5/2023.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following further amendment in the notification of the Government of Himachal Pradesh No. 1/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the e-Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)-14/2017-Loose dated the 30th June, 2017, namely:—

In the said notification,—

- (i) in Schedule I –2.5%, against S. No. 91A, in column (3), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:—

“Jaggery of all types including Cane Jaggery (gur), Palmyra Jaggery, pre-packaged and labelled; Khandsari Sugar, pre-packaged and labelled; Rab, pre-packaged and labelled”;

- (ii) in Schedule II–6%, vafter S. No. 186 and entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely:—

(1)	(2)	(3)
“186A	8214	Pencil sharpeners”;

- (iii) in Schedule III–9%, against S. No. 302A, in column (3), at the end, the brackets and words “[other than pencil sharpeners]” shall be inserted.

2. This notification deemed to be come into force from the 1st day of March, 2023.

By order,

Sd/-  
(BHARAT KHERA),  
Pr. Secretary (ST&E).

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 7 मार्च, 2023

अधिसूचना संख्या: 4/2023-राज्य कर (दर)

सं0 ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-5/2023.—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10), की धारा 11 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, हिमाचल प्रदेश सरकार, की अधिसूचना संख्या 2/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017, जिसे ई-राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-14/2017-लूज दिनांक 30 जून, 2017, के तहत प्रकाशित की गई थी, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम संख्या 94 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (ii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(iii) राब, उनसे भिन्न जिन्हें प्री-पैकेज्ड और लेबल से भिन्न”;

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 मार्च, 2023 से लागू समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-

(भरत खेड़ा),  
प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)।

*[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-5/2023, dated 07-03-2023 as required under clause (3) of Artical 348 of the Constitution of India].*

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 7th March, 2023

Notification No. 4/2023-State Tax (Rate)

**No. EXN-F(10)-5/2023.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following further amendments in the notification of the Government of Himachal Pradesh No. 2/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the e-Gazette of Himachal Pradesh, *vide* number EXN-F(10)-14/2017-Loose dated the 30th June, 2017, namely:—

In the said notification, in the Schedule, against S. No. 94, in Column (3), after the item (ii) and the entries relating thereto, the following item and entry shall be inserted, namely:—

“(iii) Rab, other than pre-packaged and labeled”.

2. This notification deemed to be come into force from the 1st day of March, 2023.

By order,

Sd/-

(BHARAT KHERA),  
Pr. Secretary (ST&E).

### राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश

### STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH

आर्मसडेल, शिमला-171002 Armsdale, Shimla-171002 Tel. 0177-2620152, 2620159, 2620154, Fax. 2620152  
Email: secysec-hp@nic.in

### NOTIFICATION

*Dated the, 7th March, 2023*

**No. SEC (F)1-35/2022-448.**—In exercise of the powers vested in it under Article 243K of the Constitution of India, Section 160 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 read with Rule 22 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Elections) Rules, 1994, the State Election Commission Himachal Pradesh hereby directs a special revision of electoral rolls of those Panchayats of the State wherein any casual vacancies have occurred till date. The date of determining the eligibility of a person for inclusion of the name in the electoral rolls shall be 01-01-2023 as required under Rule 14 (e) of the Rules *ibid*. The programme is as under:—

1.	Draft publication of electoral rolls	13-03-2023
2.	Filing of claims and objections before the Revising Authority.	14-03-2023 to 18-03-2023
3.	Disposal of claims and objections by the Revising Authority.	By 23-03-2023
4.	Filing of Appeals before District Election Officer (P).	By 27-03-2023
5.	Disposal of Appeals by the District Election Officer (P).	By 29-03-2023
6.	Final publication of electoral rolls	31-03-2023

The last updated final electoral rolls alongwith Supplementary List-2022, if any, shall be notified as draft electoral rolls under Rule 15 of the Rules *ibid*.

The District Election Officer (P) will appoint Revising Authorities as required under Rule 17 of the Rules *ibid* and ensure that wide publicity of the said appointment and of the special revision programme is made.

After the disposal of claims, objections and appeals, if any, District Election Officer (P) shall prepare a supplementary list 2023 through ERMS Software and shall issue a notice of final publication of electoral rolls on Form-15 as per schedule fixed by the Commission. The finally published electoral rolls shall be uploaded on the official website of the State Election Commission.

As soon as the notice of final publication is issued by the District Election Officer (P) the intimation of the same be sent to the Commission immediately through E-mail followed by confirmation by post. Thereafter adequate copies of the Supplementary List, 2023 shall be printed locally after completing all the codal formalities. These Supplementary List shall be added to the main electoral rolls. The last finally published electoral rolls alongwith Supplementary List, 2022, if any, and Supplementary list, 2023 shall be used in the ensuing by-elections to fill the casual vacancies.

The copies of the electoral rolls be made available for sale at the cost of Rs. 5/- per page to be paid in cash against receipt. However a person interested in purchasing of electoral rolls shall have to purchase full set of the electoral rolls of the concerned Ward.

The relevant provisions and procedure of *ibid* Rules enshrined under Chapter-III shall be adhered to strictly for the preparation of electoral rolls through special revision. Needless to say that the aforesaid programme should be implemented in letter and spirit. If any violation of this programme is noticed, it will be in contravention of the mandate of the Constitution of India and relevant statutory provisions which may lead to serious consequences in view of Section 160-E of the Act *ibid*.

By order,

Sd/-

(ANIL KHACHI),

State Election Commissioner.

